



सत्यमेव जयते

केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)

O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), CENTRAL TAX,

केंद्रीय कर भवन,

सातवीं मंजिल, पोलिटेकनिक के पास,
आम्बावाडी, अहमदाबाद-380015

7th Floor, GST Building,
Near Polytechnic,
Ambavadi, Ahmedabad-380015

☎ : 079-26305065

टेलीफैक्स : 079 - 26305136



रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

क फाइल संख्या : File No : V2(32)/25/Ahd-I/2017-18
Stay Appl.No. NA/2017-18

796-10800

ख अपील आदेश संख्या Order-In-Appeal Nos. AHM-EXCUS-001-APP-304-2017-18
दिनांक Date : 31-01-2018 जारी करने की तारीख Date of Issue

8/2/2018

श्री उमा शंकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित

Passed by Shri. Uma Shanker, Commissioner (Appeals)

ग Assistant Commissioner, केन्द्रीय कर, Ahmedabad-South द्वारा जारी मूल आदेश सं MP/1319/Reb/2016
दिनांक: 21/03/2017, से सृजित

Arising out of Order-in-Original No. MP/1319/Reb/2016 दिनांक: 21/03/2017 issued by Assistant
Commissioner, Central Tax, Ahmedabad-South

घ अपीलकर्ता का नाम एवं पता Name & Address of the Appellant / Respondent
M/s Overseas Enterprises
Ahmedabad

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को
अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as
the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन

Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक
के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
: 110001 को की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision Application Unit
Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New
Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first
proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने में या किसी भण्डागार से दूसरे
भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के
दौरान हुई हो।

(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to
another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a
warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of
on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country
or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

... 2 ...



(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया माल हो।

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.


सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैन्टल हारस्पिटल कम्पाउण्ड, मेघाणी नगर, अहमदाबाद-380016

(a) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghari Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.



The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

- (3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

- (4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

- (5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

- (6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपील के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है।


For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited, provided that the pre-deposit amount shall not exceed Rs.10 Crores. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER-IN-APPEAL

This order arises out of an appeal filed by M/s. Overseas Enterprises, 53/5, Kalaria Chemicals Compound, GIDC, Near Fire Station, Odhav, Ahmedabad-382415 (in short 'appellant') against Order-in-Original No.MP/1319/Reb/2016 dated 23.03.2017 (in short 'impugned order') passed by the then Assistant Commissioner, Central Excise Division-V, Ahmedabad-I (in short 'adjudicating authority').


2. Briefly stated that SCN dated 01.03.2017 was issued for rejection of rebate claim of Rs.97,500/- filed by the appellant for non-realization of export proceeds within stipulated time in terms of para 2(g) of Notifn. No.19/2004-CE(NT) dated 06.09.2004 read with Regulation 3 and 8 of the Foreign Exchange Management Act, 2000. This SCN was adjudicated by the adjudicating authority vide impugned order underwhich said rebate claim of Rs.97,500/- was rejected under Section 11B of the CEA, 1944 read with Rule 18 of the Central Excise Rules, 2002.

3. Aggrieved with the impugned order, the appellant has filed the present appeal wherein, *inter alia*, submitted that because of some dispute with overseas buyer and orally confirmation with the merchant exporter, the BRC will be submitted within 2 months.

4. Personal hearing in the matter was held on 18.12.2017. Shri Vimal P. Vora, Accountant, appeared on behalf of the appellant and submitted that BRC is not received and requested to adjourn for one month. The appellant vide letter dated 17.01.2018 filed 2 BRC both dated 10.01.2018 for realization of USD-7590.50 and USD-6209.50 by the merchant exporter M/s. Zephyr International, Ahmedabad.

5. I have carefully gone through the appeal memorandum, submission made at the time of personal hearing and evidences available on records. I find that the main issue to be decided is whether the appellant is eligible for rebate or otherwise. Accordingly, I proceed to decide the case on merits.

6. Prima facie, I find that the goods have been exported by the merchant exporter viz. M/s. Zephyr International, Ahmedabad and the appellant had failed subject rebate claim on the basis of NOC issued by said merchant exporter. The goods had been cleared for export vide ARE-1 No.27/15-16 dated 27.01.2016 but failed to produce BRC within a period of one year from LEO date vide RBI Circular No.AP(DIR Series) No.50 dated 03.06.2008. I find that export of goods and its duty payment is not in dispute. The only dispute is realization of foreign remittance by the merchant exporter in specified time by the RBI. But, now the appellant has furnished copies of BRC dated 10.01.2018 showing inward remittance of foreign exchange for said exported goods by the merchant exporter. I find that in series of judgements of higher appellate forum it is held that substantial benefit accrued should not be denied when vital elements viz. export of




goods, its duty payment and receipt of foreign exchange is not disputed. I find that the appellant has fulfilled the criteria for availing substantial benefit viz. rebate of duty on export of goods under Rule 18 of the Central Excise Rules, 2002. In this regard, I find that in case of revision application filed against M/s. Globe Technologies-2016(344)ELT-677(GOI) it held as under:

"Export rebate - Evidence of export - Bank Remittance Certificates (BRC) - Non-submission of BRC, when fatal to rebate sanction - Said document not required to be submitted along with rebate claim under Rule 18 of Central Excise Rules, 2002 but required to be filed within one year from date of export as period for receipt of remittance is one year or as extended - However in case of assessee stipulated period of one year for realization of export proceeds had been exceeded much before issue of show cause notices - BRC had become due during pendency of rebate claim - On failure to submit BRCs to Department till date, it cannot be held that rebate ought to be sanctioned as it is not a prescribed document at time of filing of rebate - Despite claim that partial remittance received by them, no evidence produced to that effect - Exports entitled to rebate benefit only if export realization received - Rejection of rebate claim by original authority upheld. [2014 (306) E.L.T. 24 (All.) distinguished]. [paras 10, 14]"

7. In view of the above discussion and findings, I allow the appeal filed by the appellant with consequential relief and set-aside the impugned order.

8. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

The appeal filed by the appellant stands disposed of in above terms.




(उमा शंकर)

केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील्स)

Dt. 31.01.2018

Attested:



(B.A. Patel)

Supdt.(Appeals)


Central GST, Ahmedabad.

BY SPEED POST TO:

M/s. Overseas Enterprises,
53/5, Kalaria Chemicals Compound,
GIDC, Near Fire Station, Odhav,
Ahmedbad-382415.

Copy to:-

- (1) The Chief Commissioner, Central Tax, Ahmedabad Zone.
- (2) The Principal Commissioner, CGST, Ahmedabad South (RRA Section).
- (3) The Assistant Commissioner, CGST, Division-V(Odhav), Ahmedabad South.
- (4) The Asstt. Commissioner(System), Central Tax , Ahmedabad-South
(for uploading OIA on website)
- (5) Guard file
- (6) P.A. file.



100

